

सेवा में,
सम्पादक,

वाराणसी।

प्रेस विज्ञप्ति

एस.एम.एस. समूह द्वारा यू.एस.ए. की कैलिफॉर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समझौता

- इससे पूर्व अमरीका स्थित क्लैफिन विश्वविद्यालय तथा ब्राजील स्थित यूनेस्प से भी समझौता हुआ
- विद्यार्थी एवं शिक्षक आदान-प्रदान एवं संयुक्त शोध एस.एम.एस. की कार्यसूची में सबसे ऊपर

वाराणसी : देश के प्रख्यात शैक्षणिक समूह स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज़ (एस.एम.एस) ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय पकड़ को और सुदृढ़ करते हुये एक और शैक्षणिक समझौता अमरीका स्थित कैलिफॉर्निया स्टेट विश्वविद्यालय से हाल ही में किया है जिससे न केवल विद्यार्थी एवं शिक्षकों का आदान-प्रदान सम्भव हो पायेगा अपितु संयुक्त रूप से शोध तथा सेमीनार-कॉन्फ्रेंस एवं अन्य शैक्षणिक महत्व के मुद्दों पर भी कार्य हो पायेगा। समझौते के अनुसार दोनों पक्ष मिलजुलकर लैक्चर, कांफ्रेंस, ट्रेनिंग, कार्यशालायें, संयुक्त शोध, संयुक्त योजनाओं (शैक्षणिक एवं औद्योगिक दोनों) एवं प्रबन्ध कौशल विकास कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन करते रहेंगे। इसके लिये समस्त अपलब्ध उच्च कोटि के जनसमप्रेषण एवं संचार माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी भी शामिल है।

समझौते से समूचे उत्तर, पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी भारत के विद्यार्थी लाभान्वित तो होंगे ही साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर वे अपने आप को और सुदृढ़ कर पायेंगे जिससे नवीन औद्योगिक परिवेश में वे आसानी से अपने आप को ढाल सकेंगे। ऐसा डॉ. एम. पी. सिंह, अधिशासी सचिव (एस.एम.एस समूह) का मानना है। एस.एम.एस. समूह की ओर से लखनऊ स्थित एस.एम.एस. के निदेशक प्रो. मनोज मेहरोत्रा तथा कैलिफॉर्निया स्टेट विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. एलबर्ट कार्निंग (प्रेसिडेन्ट) ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर प्रो. विपिन गुप्ता (संयुक्त निदेशक – ग्लोबल प्रबन्ध केन्द्र, कैलिफॉर्निया स्टेट विश्वविद्यालय), वाराणसी स्थित एस.एम.एस. की अध्यक्ष-सेन्टर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन्स – डॉ. मीनाक्षी सिंह तथा श्री अमिताभ पांडे (सहायक प्रोफेसर-एस.एम.एस., वाराणसी) भी उपस्थित थे।

1965 में स्थापित कैलिफॉर्निया स्टेट विश्वविद्यालय से अब तक पैंसठ हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं तथा इस समय लगभग सत्तर पाठ्यक्रमों में अट्ठारह हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ संस्थानों को छोड़ पूरे उत्तर एवं पूर्व तथा उत्तर-पूर्वी भारत में ऐसे दीर्घकालिक समझौते नगण्य हैं। इस पूरे क्षेत्र में एस.एम.एस. समूह पहला ऐसा समूह है जिसने संयुक्त राज अमरीका के दो विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक समझौता किया है।



The Editor

Varanasi

Press-Note

Yet another international feat achieved by SMS Group

SMS Group now ties-up with California State University, USA

- *Faculty & student exchange, joint collaborative research tops SMS agenda*
- *Only Group in North & East India to have two American academic collaborations*

VARANASI: A young, vibrant university, California State University, San Bernardino, (CSUSB) USA, one of the fastest growing universities in California, entered into an agreement and signed MoU with one of the top-most educational groups imparting professional education in India, School of Management Sciences (SMS) group with its campuses in Varanasi and Lucknow. This is the third International University with whom the SMS group has tied-up for variety of academic related programmes. The earlier two are the Claflin University, USA and UNESP, Brazil.

As per the collaboration, both institutions will try to develop collaboration between their colleges, departments, administrative staffs, and professors through such means as exchanges, sabbatical leave assignments, lectures, conferences, internships, workshops, collaborative research, joint projects with business and industry, and professional development programs with all colleges and faculties. Both institutions will try to exchange students, especially in the academic departments listed above and will try to undertake joint activities with their students and appropriate units in artistic, cultural, and athletic areas. Both institutions will promote institutional and academic cooperation through computing, telecommunications, and other modes of communication through information technology.

It is worth mentioning that more than 65,000 students have graduated from CSUSB, including many who work in Southern California and make a major positive impact on the economy. Founded in 1965, CSUSB currently enrolls more than 17,500 students and employs more than 2,100 faculty and staff. Located equidistant between Los Angeles and the Palm Springs area, the university offers more than 70 educational programmes and a wide variety of education credential and certificate programs, including many that have earned national recognition. Its business and entrepreneurship programmes are nationally respected; CSUSB is distinguished as the first Inland Empire University with prestigious national accreditation for its College of Business and Public Administration.

The MoU was signed by Prof. Manoj Mehrotra, Director, SMS-Lucknow and Prof. Albert Karnig, the third President of CSUSB. Prof. Vipin Gupta, Co-Director of Global Management Centre, CSUSB and Dr. Meenakshi Singh, Coordinator, Centre for International Relations, SMS, Varanasi along with Mr. Amitabh Pandey, Senior Lecturer, SMS Varanasi were present on the occasion. The Executive Secretary of SMS Society, Dr. M. P. Singh has hailed the latest tie-up and has equated the same to the planned inching of SMS Group towards global standards which happens to be a rare feat by a B-School, specially in the Northern and Eastern belt of the country.